



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1941 (श०)

(सं० पटना 473) पटना, सोमवार, 25 मार्च 2019

सं० 03/नमामि गंगे-06-01/2019-730/न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

8 मार्च 2019

विषय:— भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुमानित लागत कुल ₹0 35.49 करोड़ (पैंतीस करोड़ उनचास लाख) के व्यय पर फतुहा शहर में **Interception & Diversion** एवं **STP** परियोजना के निर्माण हेतु, जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि ₹0 35.49 करोड़ पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेंज की राशि ₹0 1.9424 (एक करोड़ चौरानवें लाख चौबीस हजार ₹0 मात्र) करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल ₹0 37.4325 करोड़ (सैंतीस करोड़ तेतालीस लाख पचीस हजार ₹0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

1. विषय एवं वित्तीय आकार।—फतुहा नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों/प्रतिष्ठानों एवं शहर के प्रमुख नालों को सिवरेज प्रणाली से जोड़ा गया है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर **Interception & Diversion** एवं **STP** का डी०पी०आर० तैयार कर NMCG भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसपर NMCG के पत्रांक Pr-12014/12/2018, दिनांक- 24.12.2018 द्वारा योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर राशि 35.49 करोड़ रुपये (पैंतीस करोड़ उनचास लाख ₹0) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना अन्तर्गत सिवरेज प्रणाली के माध्यम से आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को नाला के जरिए Sewerage Treatment Plant तक पहुंचाया जायेगा। सिवेज को ट्रीटमेंट उपरांत प्रवाह किया जायेगा ताकि गंगा में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। आवश्यकतानुसार बीच में Pumping Station का भी निर्माण प्रस्तावित है ताकि Sewage को STP के माध्यम से ट्रीट किया जाय। योजना का अनुमानित लागत (सेन्टेज सहित) ₹0 37.4325 करोड़ (सैंतीस करोड़ तेतालीस लाख पचीस हजार ₹0 मात्र) करोड़ है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है।

उक्त परियोजना का **major component** निम्नवत है :-

Sl no.	Major Head	Quantity
1	Developlment of sewerage treatment plnat	7 MLD capacity
2	MPS at STP site	1 no.
3	Under drainage network	5.7 K.M
4	Operation & Maintenance	15 Years

2. उद्देश्य ।—फतुहा पूर्वी बिहार का एक शहर है। फतुहा शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि०मी० लंबाई में बिहार से गुजरती है। गंगा नदी फतुहा शहर से सट कर प्रवाह करती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर के **untreated sewage** को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किए जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए **Interception & Diversion** एवं **STP** का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस योजना अन्तर्गत फतुहा के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले **sewage** को नाला के जरिए संबंधित **sewage treatment plant** तक पहुंचाया जायेगा ताकि **sewage** को **STP** के माध्यम से शोधन किया जायेगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार **sewage** को शोधित कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा।

3. भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा ।—वर्तमान समय में नालों से प्राप्त होने वाले सिवेज को शोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके वजह से नालों का प्रवाह सीधे गंगा नदी में प्रवाह हो रहा है। नाले से प्राप्त होने वाले सिवेज को साफ करने हेतु **Interception & Diversion** एवं **STP** का निर्माण किया जाना है। इस योजना को 18 माह में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। **STP** के सफल अधिष्ठापन के उपरांत संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख रखाव किया जाना है।

4. आवश्यक निधि के स्रोत (यथा राज्यांश, केन्द्रांश, शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, बाह्य संपोषित इत्यादि) ।—फतुहा शहर में **Interception & Diversion** एवं **STP** परियोजना भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत संपोषित योजना है। फतुहा **Interception & Diversion** एवं **STP** परियोजना हेतु वर्तमान परिपेक्ष्य में सेंटेंज सहित **₹ 37.4325 करोड़ (सैंतीस करोड़ तेतालीस लाख पचीस हजार ₹ 0 मात्र)** व्यय होने की संभावना है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नवत है :-

(राशि करोड़ में)				
क्र०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश (100 %)	राज्यांश (सेन्टेज राशि)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2019—2020	18.7609	1.1194	19.8803
2	2020—2021 (O&M cost for 15 year)	16.7292	0.823	17.5522
कुल :-		35.49	1.9424	37.4325

Operation & Maintenance.— इस परियोजना का **O&M** कार्य संवेदक द्वारा 15 वर्षों तक कि या जाना है। स्वीकृत Project के Supervision Cost की राशि BGCMS को देय होगी।

5. प्रकृति :-

यह निर्माण कार्य से संबंधित है। फतुहा शहर के क्षेत्राधीन आवासों के सिवरेज प्रणाली के द्वारा निष्काषित मल—जल एवं गंदे जल को **STP** के माध्यम से शोधन किया जायेगा तदुपरांत शोधित जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाएगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक—08.03.2019 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं०—09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुमानित लागत कुल ₹ 35.49 करोड़ (पैंतीस करोड़ उनचास लाख) के व्यय पर फतुहा शहर में **Interception & Diversion** एवं **STP** परियोजना के निर्माण हेतु, जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि ₹ 35.49 करोड़ पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेंज की राशि ₹ 1.9424 (एक करोड़ चौरानवें लाख

चौबीस हजार रू0 मात्र) करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 37.4325 करोड़ (सैंतीस करोड़ तेतालीस लाख पचीस हजार रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, फतुहा/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 473-571+200 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>